## शिवरात्रि का त्यौहार है । by Mukesh Kumar

शिवरात्रि का त्यौहार है शिव शंकर का वार है बम भोले का वार है शिव शंकर को भज ले प्यारे करते बेडा पार है

कोई फल और फूल चढ़ावे कोई बेल और पाती है एक लोटे जल से ही खुश हो जाते ये कैलाशी है करते सब उद्धार है शिव शंकर का वार है बम भोले का वार है शिव शंकर को भज ले प्यारे करते बेडा पार है

तीन लोक के स्वामी बाबा शिव शंकर कैलाशी हैं पी करके भंगिया रहता अपनी धुन में अविनाशी है सर पे गंगा का भार है शिव शंकर का वार है बम भोले का वार है शिव शंकर को भज ले प्यारे करते बेडा पार है

मस्तक ऊपर चंद्र विराजे पहने सपों की माला है जटा में जिनकी गंग बिराजे रूप बड़ा विकराला है नंदी पर सवार हैं शिव शंकर का वार है बम भोले का वार है शिव शंकर को भज ले प्यारे करते बेडा पार है

जटाजूट धारी भंडारी शिव शंकर भगवान हैं तुमसा ना प्रभु कोई दानी लीला तेरी महान है देवो में देव महान है शिव शंकर भगवान है शिव शंकर भगवान है बम भोले का वार है शिव शंकर को भज ले प्यारे करते बेडा पार है

 $\frac{\text{https://bhaktivandana.com/lyrics/\%e0\%a4\%b6\%e0\%a4\%bf\%e0\%a4\%b5\%e0\%a4\%b0\%e0\%a4\%be\%e0\%a4\%a4\%b6\%e0\%a4\%b6\%e0\%a4\%bf\%e0\%a4\%bbf\%e0\%a4\%bbf-\%e0\%a4\%bbf-\%e0\%a4\%a4\%be\%e0\%a4\%a6\%e0\%a4\%a6\%e0\%a4\%a6\%e0\%a4\%be\%e0\%a4\%be\%e0\%a4\%be\%e0\%a4\%b0-$ 

%e0%a4%b9%e0%a5%88-bv-mukesh-kuma/